



## भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{6}{8} \times 1\frac{2}{4} =$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{6} =$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{1}{7} =$$

$$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} =$$

$$\frac{1}{8} \times \frac{1}{9} =$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{4}{7} =$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} =$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{1}{8} =$$

$$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{5} =$$

$$2\frac{1}{2} \times \frac{5}{8} =$$



## भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: \_\_\_\_\_

दिनांक: \_\_\_\_\_ स्कोर: \_\_\_\_\_

$$\frac{6}{8} \times 1\frac{2}{4} = \frac{9}{8} = 1\frac{1}{8}$$

$$\frac{2}{5} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{15}$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{1}{7} = \frac{3}{49}$$

$$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{5}{12}$$

$$\frac{1}{8} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{72}$$

$$\frac{3}{7} \times \frac{4}{7} = \frac{12}{49}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{3}{5} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{40}$$

$$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{5} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$$

$$2\frac{1}{2} \times \frac{5}{8} = \frac{25}{16} = 1\frac{9}{16}$$